


लीलाधर जगूड़ी



अनुभव  
के आकाश  
में चाँद

८११.८  
लीला अ